

अनुक्रमांक .....

नाम .....

928

822(DW)

2023

गणित

( Hindi and English Versions )

समय : तीन घण्टे 15 मिनट |

| पूर्णांक : 70

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं ।

**Note :** First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

**निर्देश :** i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

ii) इस प्रश्नपत्र के 'अ' और 'ब' दो खण्ड हैं।

iii) खण्ड 'अ' में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर देने हैं।

iv) ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर, ह्याइटनर आदि का प्रयोग न करें।

v) खण्ड 'ब' में 50 अंकों के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं।

vi) इस खण्ड में कुल 5 प्रश्न हैं।

vii) प्रत्येक प्रश्न के आरम्भ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खण्ड करने हैं।

viii) प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।

ix) प्रथम प्रश्न से आरम्भ कीजिए और अन्तिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए।

x) यदि रफ़ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर-पुस्तिका के बाएँ पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट ( X ) दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए।

xi) रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएँ न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए।

xii) जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है; उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जायेंगे।

**Instructions :**

- i) All questions are compulsory.
- ii) This question paper has *two* parts 'A' and 'B'.
- iii) Part 'A' contains **20** multiple choice type questions of 1 mark each that has to be answered on **OMR** Answer Sheet.
- iv) After giving answer on **OMR** Answer Sheet, do not cut it and do not use eraser, whitener etc.
- v) Part '**B**' contains detailed answer type questions of **50** marks.
- vi) Total **5** questions are there in this part.
- vii) In the beginning of each question it has been mentioned how many parts of it are to be attempted.
- viii) Marks allotted to each question are mentioned against it.
- ix) Start from the first question and go up to the last question. Do not waste your time on the question you cannot solve.
- x) If you need place for rough work, do it on left page of your answer book and cross ( × ) the page. Do not write the solution on that page.
- xi) Do not rub off the lines constructed in a question of construction. Do write the steps of construction in brief, if asked.
- xii) Draw neat and correct figure in solution of a question wherever it is necessary, otherwise in its absence the solution will be treated incomplete and wrong.

खण्ड - अ

Part - A

( बहुविकल्पीय प्रश्न )

( Multiple Choice Type Questions )

1. निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है  

(A) $\sqrt{9}$	(B) $\sqrt{3}$	
(C) $\sqrt{0.1}$	(D) 0.101101110...	1
1. In the following numbers, the rational number is  


(A) $\sqrt{9}$	(B) $\sqrt{3}$	
(C) $\sqrt{0.1}$	(D) 0.101101110...	1
2. रेखिक समीकरण युग्म  $x + y = 10$ ,  $x - y = 4$  का हल है  

(A) $x = 5, y = 2$	(B) $x = 7, y = 3$	
(C) $x = 7, y = -3$	(D) $x = -7, y = -3$	1

2. The solution of the pair of linear equations  $x + y = 10$ ,  $x - y = 4$  is  
 (A)  $x = 5, y = 2$  (B)  $x = 7, y = 3$   
 (C)  $x = 7, y = -3$  (D)  $x = -7, y = -3$  1
3. बिन्दु  $(5, 9)$  की  $y$ -अक्ष से दूरी है  
 (A) 14 मात्रक (B) 9 मात्रक  
 (C) 5 मात्रक (D)  $\sqrt{106}$  मात्रक 1
3. The distance of point  $(5, 9)$  from  $y$ -axis is  
 (A) 14 units (B) 9 units  
 (C) 5 units (D)  $\sqrt{106}$  units 1
4. यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा  $5\sqrt{2}$  सेमी है, तो इसके कर्ण की लंबाई है  
 (A) 10 सेमी (B)  $10\sqrt{2}$  सेमी  
 (C) 15 सेमी (D)  $15\sqrt{2}$  सेमी 1
4. If one side of an isosceles right triangle is  $5\sqrt{2}$  cm, then the length of its hypotenuse is  
 (A) 10 cm (B)  $10\sqrt{2}$  cm  
 (C) 15 cm (D)  $15\sqrt{2}$  cm 1
5.  $\sin^2 18^\circ - \cos^2 72^\circ$  का मान है  
 (A) 1 (B) 0  
 (C)  $\frac{1}{4}$  (D)  $-1$  1
5. The value of  $\sin^2 18^\circ - \cos^2 72^\circ$  is  
 (A) 1 (B) 0  
 (C)  $\frac{1}{4}$  (D)  $-1$  1
6. किसी धनात्मक सम पूर्णांक  $p$  के लिए, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा  
 (A)  $p$  (B)  $p + 1$   
 (C)  $2p$  (D)  $2p + 1$  1
6. For any positive even integer  $p$ , every positive odd integer will be of the form  
 (A)  $p$  (B)  $p + 1$   
 (C)  $2p$  (D)  $2p + 1$  1


822(DW)

7. यदि संख्याओं 7, 8,  $x$ , 11, 14 का माध्य  $x$  है, तो  $x$  का मान है  
 (A) 9 (B) 10  
 (C) 10.5 (D) 11
7. If mean of the numbers 7, 8,  $x$ , 11, 14 is  $x$ , then the value of  $x$  is  
 (A) 9 (B) 10  
 (C) 10.5 (D) 11
8. यदि द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल समान हैं, तो  $c$  का मान है  
 (A)  $\frac{a^2}{4b}$  (B)  $\frac{a^2}{b}$   
 (C)  $\frac{b^2}{a}$  (D)  $\frac{b^2}{4a}$
8. If the roots of the quadratic equation  $ax^2 + bx + c = 0$  are equal, then the value of  $c$  is  
 (A)  $\frac{a^2}{4b}$  (B)  $\frac{a^2}{b}$   
 (C)  $\frac{b^2}{a}$  (D)  $\frac{b^2}{4a}$
9. दिए गए चित्र में यदि  $AD = (x+3)$  सेमी,  $DB = (3x+19)$  सेमी,  $AE = x$  सेमी,  $EC = (3x+4)$  सेमी और  $DE \parallel BC$ , तो  $x$  का मान है



- (A) 4 सेमी (B) 1 सेमी  
 (C) 2 सेमी (D) 3 सेमी

9. In the given figure, if  $AD=(x+3)$  cm,  $DB=(3x+19)$  cm,  $AE=x$  cm,  $EC=(3x+4)$  cm and  $DE \parallel BC$ , then the value of  $x$  is



- (A) 4 cm (B) 1 cm  
(C) 2 cm (D) 3 cm 1
10. 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समान्तर माध्य होगा  
(A) 2 (B) 4  
(C) 5 (D) 6 1
10. The arithmetic mean of the even positive numbers from 1 to 10 will be  
(A) 2 (B) 4  
(C) 5 (D) 6 1
11. संख्या 156 का अभाज्य गुणनखण्ड होगा  
(A)  $2 \times 3 \times 13$  (B)  $2^2 \times 3 \times 13$   
(C)  $2^2 \times 3 \times 11$  (D)  $2 \times 3^2 \times 13$  1
11. Prime factors of the number 156 will be  
(A)  $2 \times 3 \times 13$  (B)  $2^2 \times 3 \times 13$   
(C)  $2^2 \times 3 \times 11$  (D)  $2 \times 3^2 \times 13$  1
12. यदि एक वर्गीकृत आँकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हैं, तो इसका माध्यक है  
(A) 18 (B) 20  
(C) 22 (D) 25 1
12. If mean and mode of a grouped data are 24 and 12 respectively, then its median is  
(A) 18 (B) 20  
(C) 22 (D) 25 1

13. यदि रेखिक समीकरण युग्म  $2x+3y=5$ ,  $4x+ky=10$  के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो  $k$  का मान है
- (A)  $\frac{1}{2}$  (B) 1  
(C) 3 (D) 6 1
13. If the pair of linear equations  $2x+3y=5$ ,  $4x+ky=10$  has infinitely many solutions, then the value of  $k$  is
- (A)  $\frac{1}{2}$  (B) 1  
(C) 3 (D) 6 1
14.  $ABC$  और  $BDE$  दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि  $D$  भुजा  $BC$  का मध्य बिन्दु है। त्रिभुजों  $ABC$  और  $BDE$  के क्षेत्रफलों का अनुपात है
- (A) 2 : 1 (B) 1 : 2  
(C) 4 : 1 (D) 1 : 4 1
14.  $ABC$  and  $BDE$  are two equilateral triangles such that  $D$  is the mid-point of  $BC$ . Ratio of the areas of the triangles  $ABC$  and  $BDE$  is
- (A) 2 : 1 (B) 1 : 2  
(C) 4 : 1 (D) 1 : 4 1
15. यदि  $\cos A = \frac{7}{25}$ , तो  $\tan A + \cot A$  का मान है
- (A)  $\frac{24}{25}$  (B)  $\frac{25}{24}$   
(C)  $\frac{625}{576}$  (D)  $\frac{625}{168}$  1
15. If  $\cos A = \frac{7}{25}$ , then the value of  $\tan A + \cot A$  is
- (A)  $\frac{24}{25}$  (B)  $\frac{25}{24}$   
(C)  $\frac{625}{576}$  (D)  $\frac{625}{168}$  1
16. यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 4 सेमी तथा 3 सेमी हैं, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है
- (A) 5 सेमी (B) 6 सेमी  
(C) 7 सेमी (D) 25 सेमी 1

16. If the radii of two circles are 4 cm and 3 cm respectively, then the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of these circles is  
 (A) 5 cm (B) 6 cm  
 (C) 7 cm (D) 25 cm 1
17. द्विघात समीकरण  $x^2 - 3x - 10 = 0$  के मूल हैं  
 (A) 5, 2 (B) 5, -2  
 (C) -5, 2 (D) -5, -2 1
17. The roots of the quadratic equation  $x^2 - 3x - 10 = 0$  are  
 (A) 5, 2 (B) 5, -2  
 (C) -5, 2 (D) -5, -2 1
18. यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊँचाई की  $\sqrt{3}$  गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है  
 (A)  $60^\circ$  (B)  $45^\circ$   
 (C)  $30^\circ$  (D)  $90^\circ$  1
18. If the length of shadow of a tower on the plane ground is  $\sqrt{3}$  times of its height, the angle of elevation of the sun is  
 (A)  $60^\circ$  (B)  $45^\circ$   
 (C)  $30^\circ$  (D)  $90^\circ$  1
19. 45 सेमी ऊँचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाये गये 6 सेमी व्यास के ठोस गोलों की संख्या है  
 (A) 3 (B) 5 (C) 4 (D) 6 1
19. The number of solid spheres, each of diameter 6 cm that can be made by melting a solid metal cylinder of height 45 cm and diameter 4 cm is  
 (A) 3 (B) 5  
 (C) 4 (D) 6 1
20. यदि  $\Delta ABC$  एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि  $AD \perp BC$ , तो  $AD^2$  बराबर है  
 (A)  $3 DC^2$  (B)  $2 DC^2$  (C)  $\frac{3}{2} DC^2$  (D)  $4 DC^2$  1
20. If  $\Delta ABC$  is an equilateral triangle such that  $AD \perp BC$ , then  $AD^2$  is equal to  
 (A)  $3 DC^2$  (B)  $2 DC^2$  (C)  $\frac{3}{2} DC^2$  (D)  $4 DC^2$  1

## खण्ड - ब

## Part - B

( विस्तृत उत्तरीय प्रश्न )

( Detailed Answer Type Questions )

1. सभी खण्ड कीजिए :

(a) द्विघात समीकरण  $4x^2 - 6x + 5 = 0$  का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2

(b) 3.0 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिये। इसके केन्द्र से 7.0 सेमी दूर स्थित एक बिन्दु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखियें। 2

(c) यदि  $\cos(A - B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$  और  $\sin(A + B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $0^\circ < (A + B) \leq 90^\circ$  और  $A > B$  है, तो  $A$  और  $B$  का मान ज्ञात कीजिए। 2

(d) निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए : 2

वर्ग अंतराल	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
बारंबारता	2	3	8	6	6	3	2

(e) दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का नौ गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2

(f) निम्नांकित आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए : 2

वर्ग अंतराल	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
बारंबारता	7	14	13	12	20	11	15	8

1. Do all the parts :

(a) Find the discriminant of the quadratic equation  $4x^2 - 6x + 5 = 0$  and hence find the nature of its roots. 2

(b) Draw a circle of radius 3.0 cm. From a point 7.0 cm away from its centre, construct the pair of tangents to the circle. Write the steps of the construction in brief. 2

(c) If  $\cos(A - B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$  and  $\sin(A + B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $0^\circ < (A + B) \leq 90^\circ$  and  $A > B$ , then find the values of  $A$  and  $B$ . 2



- (d) Find the median of the following frequency distribution : 2


Class-interval	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
Frequency	2	3	8	6	6	3	2

- (e) The sum of the digits of a two-digit number is 9. Nine times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. 2
- (f) Find the mode of the following data : 2

Class-interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
Frequency	7	14	13	12	20	11	15	8

2. किन्हीं पाँच खण्डों को हल कीजिए :

- (a) (i) दर्शाइये कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक  $4q + 1$  या  $4q + 3$  के रूप का होता है, जहाँ  $q$  एक पूर्णांक है। 2
- (ii) 867 और 255 का म०स० यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। 2
- (b) एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को  $30^\circ$  के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकेण्ड बाद कार का अवनमन कोण  $60^\circ$  हो गया। इस बिन्दु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 4
- (c) बिन्दुओं  $A(-2, 2)$  और  $B(2, 8)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड  $AB$  को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिन्दुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4
- (d) एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग  $\frac{29}{20}$  हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। 4
- (e) चित्र में,  $AB$  और  $CD$  केन्द्र  $O$  वाले एक वृत्त के दो लम्बवत व्यास हैं।  $OD$  छोटे वृत्त का व्यास है। यदि  $OA = 7$  सेमी, तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।



(f) निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए :

4

वर्ग अंतराल	20-60	60-100	100-150	150-250	250-350	350-450
बारंबारता	7	5	16	12	2	3

2. Do any five parts :

(a) (i) Show that any positive odd integer is of the form  $4q + 1$  or  $4q + 3$ , where  $q$  is some integer. 2


(ii) Find the H.C.F. of 867 and 255 using Euclid's division algorithm. 2

(b) A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at the angle of depression of  $30^\circ$ , which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. After 6 seconds the angle of depression of the car is found to be  $60^\circ$ . Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. 4

(c) Find the coordinates of the points which divide the line segment  $AB$  joining points  $A(-2, 2)$  and  $B(2, 8)$  into four equal parts. 4

(d) The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 2 is added to both the numerator and the denominator, then the sum of new fraction and the original fraction is  $\frac{29}{20}$ . Find the original fraction. 4

(e) In the figure,  $AB$  and  $CD$  are two perpendicular diameters of a circle with centre  $O$ .  $OD$  is diameter of the smaller circle. If  $OA = 7$  cm, find the ratio of the areas of smaller and larger circles.



(f) Find the mean of the following frequency distribution :

4

Class-interval	20-60	60-100	100-150	150-250	250-350	350-450
Frequency	7	5	16	12	2	3

3. एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अन्तर्गत करने वाली भुजाएँ समानुपाती हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। 6

अथवा

$BL$  और  $CM$  एक समकोण त्रिभुज  $ABC$  की माध्यिकायें हैं तथा इस त्रिभुज का  $\angle A$  समकोण है। सिद्ध कीजिए कि  $4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$ . 6

3. If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then prove that the two triangles are similar. 6

OR

$BL$  and  $CM$  are medians of a triangle  $ABC$ , right angled at  $A$ . Prove that  $4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$ . 6

4. हल कीजिए :

$$\frac{4}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 3$$

$$\frac{8}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = 1$$

6

अथवा

एक मोटर बोट, जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किमी/घंटा है, 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 6

4. Solve :

$$\frac{4}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 3$$

$$\frac{8}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = 1$$

6

OR

A motor boat, whose speed is 18 km/hour in still water, takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. 6

5. धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊँचाई 24 सेमी है तथा निचले ओर ऊपरी सिरों की त्रिज्यायें क्रमशः 8 सेमी और 20 सेमी हैं। 40 रु० प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ( $\pi = 3.14$  लीजिए) 6

### अथवा

3 मी व्यास का एक कुआँ 14 मी की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएँ के चारों ओर 4 मी चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बाँध बनाया जाता है। इस बाँध की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। 6

5. A container, opened from the top and made up of a metal sheet, is in the form of a frustum of a cone of height 24 cm with radii of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of milk which can completely fill up the container, at the rate of Rs. 40 per litre. (Use  $\pi = 3.14$ ) 6

### OR

A well of diameter 3 m is dug 14 m deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around the well in the shape of a circular ring of width 4 m to form an embankment. Find the height of the embankment. 6

822(DW) - 3,62,000